



::आदेशः

अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग के पत्र संख्या-479/XII/2005/82(26)/2003 दिनांक 15 जून, 2005 तथा राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-294/रा0नि0आ0/लेखा-489(1)/2005 दिनांक 26 मई, 2005 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-06-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 में विभिन्न वचनबद्ध मदों में पूर्व आवंटित धनराशि के अतिरिक्त अवचनबद्ध मदों में रूपये 935000/- (रूपये नौ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न-परिशिष्ट-'क' के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल के निवर्तन हेतु आवंटित की जाती है।

संलग्न-यथोक्त।

(श्रीमती कविता नवियाल),
वित्त अधिकारी।

संख्या 358 (1)/रा0नि0आ0/लेखा-489(1)/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, कोषाग्र एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाइल।

(श्रीमती कविता नवियाल),
वित्त अधिकारी।

राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तरांचल।


आय-व्ययक वर्ष 2005-2006

अनुदान संख्या-19, लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेतर-00-800-अन्य व्यय-06 राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु)

पत्र संख्या- /रा0नि0आ0/लेखा-489(1)/2005 दिनांक जून, 2005 (धनराशि हजार रूपये में)

क्र. सं.	मानक मद	वर्ष 2005-06 में पूर्व आवंटित धनराशि	वर्ष 2005-06 में वर्तमान आवंटित धनराशि	कुल आवंटित (3+4)
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	2100	0	2100
2	03-महंगाई भत्ता	630	0	630
3	04-यात्रा व्यय	50	0	50
4	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1	0	1
5	06-अन्य भत्ते	231	0	231
6	07-मानदेय	1	0	1
7	08-कार्यालय व्यय	250	0	250
8	09-विद्युत व्यय	120	0	120
9	10-जलकर/जल प्रभार	12	0	12
10	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0	50	50
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	50	50
12	13-टेलीफोन व्यय	300	0	300
13	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	500	0	500
14	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	200	200
15	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	300	0	300
16	22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	0	100	100
17	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	50	50
18	42-अन्य व्यय	0	300	300
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	0	60	60
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	0	100	100
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी	0	25	25
22	48-महंगाई वेतन	1050	0	1050
		5545	935	6480

(रूपये नौ लाख पैंतीस हजार मात्र)


(श्रीमती कविता नवियाल)
वित्त अधिकारी।